

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 3/4/आई.डी./ईसीआई/पत्र/व्यवहारिक/विधिक/एसडीआर/खण्ड-11/2017

दिनांक- 14 दिसंबर, 2017

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

1. अरूणाचल प्रदेश
2. तमिलनाडु
3. उत्तर प्रदेश
4. पश्चिम बंगाल

विषय: राज्य विधान सभाओं का उप-निर्वाचन, 2017-निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग का आदेश-तत्संबंधी।

महोदय,

1. राज्य विधान सभाओं के दिनांक 27-11-2017 को अधिसूचित अरूणाचल प्रदेश के 12-पक्के-कसांग (अ.ज.जा.) एवं 28-लीकाबाली (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु के 11-डॉ. राधाकृष्णन नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 207-सिकन्दरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तथा पश्चिम बंगाल के 226-साबंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान उपनिर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचकों की पहचान करने के बारे में आयोग का दिनांक 14-12-2017 का आदेश इसके साथ संलग्न करने का मुझे निदेश हुआ है।

2. आयोग ने यह निदेश दिया है कि अरूणाचल प्रदेश के 12-पक्के-कसांग (अ.ज.जा.) एवं 28-लीकाबाली (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु के 11-डॉ. राधाकृष्णन नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 207-सिकन्दरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तथा पश्चिम बंगाल के 226-साबंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सभी निर्वाचकों, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किए गए हैं, को अपने मत देने से पहले मतदान केन्द्र में अपनी पहचान के लिए एपिक प्रस्तुत करना है। जो निर्वाचक एपिक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होंगे उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

3. एपिक के मामले में, उसकी प्रविष्टियों की मामूली असंगतियां नजरअंदाज कर दी जानी चाहिए बशर्ते एपिक द्वारा निर्वाचक की पहचान स्थापित की जा सके। अगर निर्वाचक कोई ऐसा निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड प्रस्तुत करते हैं जो दूसरे विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तो ऐसे कार्ड भी पहचान के लिए स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में मौजूद हो जहां निर्वाचक मतदान करने उपस्थित हुए हैं। अगर फोटोग्राफ, आदि के बेमेल होने की वजह से निर्वाचक की पहचान स्थापित करना संभव नहीं हो तो निर्वाचक को आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक पेश करना होगा।

4. आदेश संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और सभी पीठासीन अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं। इस आदेश की प्रादेशिक भाषा में अनूदित एक प्रति हर एक पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

5. आयोग का आदेश दिनांक 14-12-2017 राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित करवाया जाए। इस आदेश का सामान्य जनता एवं निर्वाचकों की जानकारी के लिए प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उक्त साधारण निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को आयोग के इस निदेश से लिखित रूप में अवगत कराया जाए।

6. कृपया नोट करें कि प्रपत्र 17क (मतदाता रजिस्टर) के स्तंभ (3) में पहचान दस्तावेज के अंतिम चार अंकों का उल्लेख किया जाना चाहिए। एपिक और प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने वाले निर्वाचकों के मामले में यह पर्याप्त होगा कि क्रमशः अक्षर 'ईपी' (एपिक का सूचक) और 'वीएस' (फोटो मतदाता पर्ची का सूचक) का संगत स्तंभ में उल्लेख कर दिया जाए और एपिक या फोटो मतदाता पर्ची की संख्या लिखना आवश्यक नहीं है। हालांकि, जो लोग कोई वैकल्पिक दस्तावेज के आधार

पर मतदान करते हैं उनके मामले में दस्तावेज के अंतिम चार अंकों के लिखे जाने के अनुदेश लागू बने रहेंगे। उसमें प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के प्रकार का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

7. रिटर्निंग अधिकारियों को अनुदेश दिए जाएंगे कि वे इस आदेश की विवक्षाएं नोट करें और विशेष ब्रीफिंग के माध्यम से सभी पीठासीन अधिकारियों को उसकी विषय-वस्तु से अवगत कराएं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पत्र की एक प्रति निर्वाचन-क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों/बूथों में उपलब्ध हो।

8. कृपया पावती दें और की गई कार्रवाई की पुष्टि करें।

**भवदीय,**

ह./-  
(लता त्रिपाठी)  
अवर सचिव